



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1932 (श10)
(सं0 पटना 593) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2010

सं0 सं0-बी0/स्था0(मु0)-18-03/10-3604/जे0

विधि विभाग

संकल्प

13 अगस्त 2010

अधीनस्थ न्यायालय में आधारभूत संरचना के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 1022/1989 (ऑल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में दिनांक 12 जुलाई 2010 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर निम्नरूपेण समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|---------|
| (1) मुख्य सचिव, बिहार | अध्यक्ष |
| (2) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (3) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (4) महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना | सदस्य |
| (5) सचिव एवं विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (6) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (7) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (8) मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |

महाधिवक्ता, बिहार, पटना विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगे।

2. समिति नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवण करेगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतियाँ महाधिवक्ता, बिहार, पटना, सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>